



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1946 (श10)

(सं0 पटना 977) पटना, सोमवार, 7 अक्टूबर 2024

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

13 सितम्बर 2024

सं० 1 स्था०-08/2024-2540/वि०स०।—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने हेतु मूल कोटि की वरीयता के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय के प्रशासनिक संवर्ग के निम्नांकित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को प्रशाखा पदाधिकारी के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है :-

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पद
1	2	3
1.	श्रीमती प्रेरणा कुमारी	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
2.	श्री संजीव कुमार-2	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
3.	श्री राकेश कुमार-1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक 13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-636, दिनांक 10.01.2024 में निहित शर्तों के अध्वधीन है।

3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रशाखा पदाधिकारी (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No-67760/2019 में दिनांक 11.05.2023 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के अनुसार अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित उच्चतर पद प्रशाखा पदाधिकारी के पद का प्रभार इस शर्त के साथ दिया जाता है कि इस याचिका में प्रतिकूल आदेश पारित होने पर यह तदनुसार प्रभावित होगा।

इस अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत वेतनमान सहित दिये जाने वाले प्रभार संबंधी आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उस हद तक आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा तथा संबंधितों को भुगतान की गयी राशि में से अंतर राशि एकमुस्त लौटा लिया जाएगा।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
अमलेन्द्र प्रसाद महतो,
निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 977+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>